



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2012-भाद्रपद 2, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, कुमारी साक्षी पिता श्री प्रताप भानूसिंह रघुवंशी, आयु-21वर्ष के नाम से अभी तक जानी, पहचानी जाती रही हूँ किन्तु मैंने दिनांक 27 जून, 2012 को श्री रत्नेश पटेल, आयु-29 वर्ष से अंतर्जातीय विवाह कर लिया है, जिस कारण अब मैं अपना नाम एवं उपनाम परिवर्तित कर रही हूँ और अब आगे हर शासकीय अभिलेखों, कार्यालयों में मैं स्वतः को श्रीमती साक्षी रत्नेश पटेल के नाम से सम्बोधित करूंगी व अब मैं इसी नाम से पहचानी जाऊंगी।

अतः सार्वजनिक सूचना के माध्यम से मैं हर आम खास को अवगत करा रही हूँ कि मेरा नाम अब कु. साक्षी रघुवंशी के स्थान पर "श्रीमती साक्षी रत्नेश पटेल" समझा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(कु. साक्षी रघुवंशी)

(108-बी.)

नया नाम :

(साक्षी रत्नेश पटेल)

पत्नी डॉ. रत्नेश पटेल,

निवास—सी-टाईप शासकीय जिला न्यायाधीश आवास,

सरदार पटेल चौक, सीआरपीएफ. रोड,

नीमच, जिला नीमच (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम सतीश खन्ना था, अब मैं अपना नाम बदल कर नारायणा सतीश खन्ना रख रहा हूँ. मेरे शासकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित रहेगा एवं मुझे आगे से नारायणा सतीश खन्ना इसी नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा।

पुराना नाम :

(सतीश खन्ना)

(Satish Khanna)

(109-B.)

नया नाम :

(नारायणा सतीश खन्ना)

(Narayana Satish Khanna)

Jr. MIG-8, Sector-3/D,

Saket Nagar, Habibganj,

Bhopal-462024

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम पूर्व में किशु मल्होत्रा (Kishu Malhotra) था जो अब बदलकर अर्शिया मल्होत्रा (Arshiya Malhotra) हो गया है. अतः मेरे एवं मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम अर्शिया मल्होत्रा (Arshiya Malhotra) समझा जाये और आज दिनांक से मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

(110-बी.)

अक्षय मल्होत्रा/सुजाता मल्होत्रा,
350, जीवाजी नगर, थाटीपुर, ग्वालियर.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड

प्र. क्र. /11-12/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम (11) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि अध्यक्ष ट्रस्टी न्यासकर्ता श्री अरविंद कुमार जैन पुत्र श्री रामकुमार, निवासी—देवनगर कॉलोनी, भिण्ड आदि ने श्री 108 आचार्य सूर्य सागर उदासीन आश्रम नशियाजी न्यास, भिण्ड के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति, जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : श्री 108 आचार्य सूर्य सागर उदासीन आश्रम नशियाजी न्यास, वाटर वर्क्स रोड, भिण्ड.
2. चल सम्पत्ति : निल.
3. अचल सम्पत्ति : निल.

(359)

एम. के. माथुर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, मझगवां, जिला सतना

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक, सतना जिला के समक्ष.

यतः कि श्री संतोष दास शिष्य स्व. महन्त जगन्नाथ दास, निवासी बहुरियन तालाब, बिरसिंहपुर, जिला सतना मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास

अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 04 अगस्त, 2012 से 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : "मानव धर्म शास्त्र यथार्थ गीता दर्शनधाम, भगवान मुरली मनोहर मंदिर सेवा ट्रस्ट, बहुरियन तालाब, बिरसिंहपुर, जिला सतना (मध्यप्रदेश)."

प्रारूप-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना जिला के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उप-धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, विनय कुमार जैन, तहसील मझगवां, बिरसिंहपुर, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को 30 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से 1 माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : "मानव धर्म शास्त्र यथार्थ गीता दर्शनधाम, भगवान मुरली मनोहर मंदिर सेवा ट्रस्ट, बहुरियन तालाब, बिरसिंहपुर, जिला सतना (मध्यप्रदेश)".

नाम	आ. नं.	रकबा	मौजा
1. मुरली मनोहर बड़ा आखाड़ा आबादी	31	0.33 डि.	परसौजाखुर्द
2.	32	1.27 ए.	परसौजाखुर्द
3. तालाब	33	7.12 ए.	परसौजाखुर्द
4. पचमठा मंदिर	34	0.10 डि.	परसौजाखुर्द
5.	35	1.36 ए.	परसौजाखुर्द
6.	36	17.55 ए.	परसौजाखुर्द

	नाम	आ. नं.	रकबा	मौजा
7.		37	1.08 ए.	परसौजाखुर्द
8.		21	1.74 ए.	परसौजाखुर्द
9.		22	0.50 डि.	परसौजाखुर्द
10.		23	0.42 डि.	परसौजाखुर्द
11.		24	0.74 डि.	परसौजाखुर्द
12.		25	0.62 डि.	परसौजाखुर्द
13.		26	1.17 डि.	परसौजाखुर्द
14.		27	0.93 डि.	परसौजाखुर्द
15.		28	0.26 डि.	परसौजाखुर्द
16.		29	0.26 डि.	परसौजाखुर्द
17.		30	0.50 डि.	परसौजाखुर्द
18.		191	0.17.62 ए.	मौजा ऐझी
19.		209	0.78 डि.	मौजा ऐझी

सभी तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना, मध्यप्रदेश.

(361)

विनय कुमार जैन,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नजूल बैरागढ़ वृत्त, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष.—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र./6/बी-113/बैरा. वृत्त/2012/1216.—जैसाकि श्री होतचन्द धनववानी (सिद्ध भाउ) अध्यक्ष, "एमपथी फाउंडेशन ट्रस्ट" संत हिरदारामनगर (बैरागढ़) भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई संपत्ति के अनुसार ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता : "एमपथी फाउंडेशन ट्रस्ट"

नवनिधि हासोमल लखानी पब्लिक स्कूल परिसर,
प्रथम तल, लेकरोड, बैरागढ़, भोपाल.

अचल सम्पत्ति	:	पंजाब नेशनल बैंक में रुपये 44,000.00
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

चन्द्र मोहन मिश्रा,
रजिस्ट्रार.

(358)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 20 जुलाई, 2012

रा. प्र. क्र. 01/बी-113 (4)/11-12.

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

क्र. 2277/रीडर/2012.—आवेदक श्री धांसीराम पिता स्व. श्री किशनलाल नागर घोषणाकर्ता न्यासी 18, पुरानी टीचर्स कॉलोनी, महात्मा गांधी मार्ग, झाबुआ द्वारा “जिला नागर ब्राम्हण परमार्थ ट्रस्ट, झाबुआ” को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र धारा 4 (2) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के तहत प्रस्तुत किया गया है.

2. जिसकी सुनवाई दिनांक 23 अगस्त, 2012 को इस न्यायालय में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 23 अगस्त, 2012 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि पश्चात् प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम	“जिला नागर ब्राम्हण परमार्थ ट्रस्ट, झाबुआ ” 18, पुरानी टीचर्स कॉलोनी, महात्मा गांधी मार्ग, झाबुआ.
अचल सम्पत्ति	निरंक.
चल सम्पत्ति	रुपये 2,00,000/- (दो लाख मात्र) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ के बचत खाता क्र. 6490 में जमा.

संजय चतुर्वेदी,

(360)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनसंरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल, उमरिया

उमरिया, दिनांक 24 जुलाई, 2012

क्र./मा.चि./2012/998.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र पाली की बीट हैमर प्रदाय किया गया था. वनपरिक्षेत्र पाली के पत्र क्र./70, दिनांक 10 जून, 2012 से इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, वनरक्षक तत्कालीन बीट गार्ड दक्षिण जमुहाई से वन भ्रमण के दौरान उक्त हैमर गिरकर गुम हो गया है. जिसकी रिपोर्ट थाना पाली में दर्ज कराया गया एवं हैमर के खोजबीन के समस्त प्रयास असफल रहे.

अतः वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न दर्शित गुमशुदा हैमर को स्टॉक रजिस्टर के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.



उक्त हैमर की कीमत 100 (एक सौ रुपये मात्र) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, वनरक्षक से एक मुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने या कार्यालय उमरिया वनमण्डल में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के बाद यदि कोई हैमर को गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

(362)

आर. के. पाठक,
वनसंरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, बड़वाह

दिनांक 1 जुलाई, 2012 से चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	वृक्षारोपण क्षेत्रों का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष	रकबा
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
1.	बड़वाह	आर. डी. एफ., खेडीटाण्डा	261	2007-08	10.000
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	248	2007-08	86.500
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	261	2007-08	20.000
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	266	2008-09	25.000
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	247	2009-10	20.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	261	2008-09	81.365
-,,-		चारागाह विकास योजना	247	2008-09	50.000
-,,-		चारागाह विकास योजना	267	2008-09	50.000
-,,-		चारागाह विकास योजना	244	2008-09	50.000
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	273	2008-09	50.000
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	267	2008-09	50.000
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	274	2008-09	50.000
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	262	2008-09	50.000
-,,-		मिश्रित वृक्षारोपण	266	2008-09	18.000
-,,-		उर्जा वन	247-I	2010-11	10.000
-,,-		उर्जा वन	247-II	2010-11	10.000
-,,-		उर्जा वन	264	2010-11	10.000
-,,-		ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	147	2010-11	20.000
-,,-		एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	264	2010-11	20.000

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
2.	बलवाडा	बिगड़े वनों का सुधार	820	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	793	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	791	2005-06	40.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	792	2005-06	40.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	794	2005-06	40.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	800	2005-06	40.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	860	2005-06	40.000
-,,-		आर. डी. एफ., मोहन्या	786	2006-07	40.000
-,,-		आर. डी. एफ., मोहन्या	790	2006-07	40.000
-,,-		आर. डी. एफ., दौलतपुरा	793	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., करोंदिया	827	2006-07	40.000
-,,-		आर. डी. एफ., रमाणा	820	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., रमठान	794	2006-07	40.000
-,,-		आर. डी. एफ., रूपाला	798	2006-07	40.000
-,,-		आर. डी. एफ., रूपाला	92	2007-08	10.000
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	85	2007-08	120.230
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	84	2007-08	111.600
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	95	2007-08	120.825
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	103	2008-09	0.000
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	127	2009-10	20.000
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	132	2009-10	20.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	89	2008-09	65.250
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	90	2008-09	119.470
-,,-		चारागाह विकास योजना	84	2008-09	40.000
-,,-		चारागाह विकास योजना	93	2008-09	40.000
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	126	2008-09	50.000
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	114	2008-09	50.000
-,,-		उर्जा वन	109-I	2010-11	10.000
-,,-		उर्जा वन	109-II	2010-11	10.000
-,,-		उर्जा वन	109-III	2010-11	10.000
-,,-		ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	127	2010-11	20.000
-,,-		ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	132	2010-11	20.000
-,,-		ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	108	2012	40.000
-,,-		एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	97	2010-11	20.000
-,,-		एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	130	2010-11	50.000

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
3.	काटकूट	वैकल्पिक वृक्षारोपण	835	2005-06	33.314
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	972	2005-06	40.000
	-,,-	आर. डी. एफ., घांघला	971	2006-07	40.000
	-,,-	आर. डी. एफ., चैनपुरा	147	2007-08	10.000
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	186	2007-08	19.125
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	147	2007-08	114.610
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	184	2008-09	25.000
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	176	2009-10	25.000
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	147	2012	50.000
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	147	2008-09	117.436
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	89	2008-09	65.250
	-,,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	202	2008-09	50.000
	-,,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	149	2008-09	50.000
	-,,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	176	2012	50.000
	-,,-	R.K.V.Y.	175	2010-11	10.000
	-,,-	उर्जा वन	147-I	2010-11	10.000
	-,,-	उर्जा वन	147-II	2010-11	10.000
	-,,-	बांस वृक्षारोपण	185	2010-11	50.000
	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण	149, 150	2010-11	30.000
	-,,-	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	176	2010-11	25.000
	-,,-	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	185	2010-11	100.000
4.	पाडल्या	बिगड़े वनों का सुधार	774	2005-06	40.000
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	769	2005-06	40.000
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	770	2005-06	40.000
	-,,-	आर. डी. एफ., हाथीडगर	774	2006-07	40.000
	-,,-	आर. डी. एफ., जिरात	769	2006-07	40.000
	-,,-	आर. डी. एफ., जामन्या	770	2006-07	40.000
	-,,-	आर. डी. एफ., बागदरा	59	2007-08	10.000
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	71	2007-08	89.320
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	59	2007-08	112.500

1	2	3	4	5	6
	पाडल्या	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	59	2008-09	25.000
	-,-	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	59	2008-09	138.600
	-,-	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	70	2008-09	134.100
	-,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	81	2008-09	50.000
	-,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	82	2008-09	50.000
	-,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	68	2012	50.000
	-,-	R.K.V.Y.	72	2010-11	10.000
	-,-	उर्जा वन	P-334-I	2010-11	10.000
	-,-	उर्जा वन	P-334-II	2010-11	10.000
	-,-	उर्जा वन	P-334-III	2010-11	10.000
	-,-	उर्जा वन	P-334-IV	2010-11	10.000
	-,-	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	65	2010-11	20.000
5.	मण्डलेश्वर	बिगड़े वनों का सुधार	709	2005-06	30.000
	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	753	2005-06	30.000
	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	755	2005-06	30.000
	-,-	बिगड़े वनों का सुधार	743	2005-06	30.000
	-,-	आर. डी. एफ., टांग्याप्लाट	709	2006-07	30.000
	-,-	आर. डी. एफ., सालीपुरा	746	2006-07	30.000
	-,-	आर. डी. एफ., सिरस्या	747	2006-07	30.000
	-,-	आर. डी. एफ., गुजरमोहना	40	2007-08	10.000
	-,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	47	2007-08	184.974
	-,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	40	2007-08	82.120
	-,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	42	2007-08	156.700
	-,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	37	2008-09	15.000
	-,-	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	43	2008-09	166.270
	-,-	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	42	2008-09	110.370
	-,-	चारागाह विकास योजना	752	2008-09	25.000
	-,-	चारागाह विकास योजना	708	2008-09	25.000
	-,-	चारागाह विकास योजना	708	2008-09	25.000
	-,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	36	2008-09	50.000
	-,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	40	2008-09	50.000
	-,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	36	2012	50.000
	-,-	मिश्रित वृक्षारोपण	36	2008-09	18.000
	-,-	R.K.V.Y.	36	2010-11	10.000

1	2	3	4	5	6
6.	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार	724	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	732	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	721	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	727	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	712	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	740	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	716	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	730	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	713	2005-06	30.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार	739	2005-06	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., काछीकुआ	711	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., गोठानिया	715	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., गढ़ी	716	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., छोटा भेडल्या	721	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., बाकानेर	724	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., हिण्डोलागवाडी	732	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., हेलाबाबर	730	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., नयापुरा	738	2006-07	30.000
-,,-		आर. डी. एफ., टेकवा	740	2006-07	30.000
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	6	2007-08	101.100
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	7	2007-08	94.950
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	10	2007-08	112.640
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	26	2007-08	65.700
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	28	2007-08	171.140
-,,-		ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	3	2012	60.000
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	20	2008-09	120.800
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	10	2008-09	25.150
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	6	2008-09	111.150
-,,-		बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	32	2008-09	111.630
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	13	2008-09	50.000
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	19	2008-09	50.000
-,,-		राष्ट्रीय वनीकरण योजना	9	2008-09	50.000
-,,-		R.K.V.Y.	13	2010-11	10.000
-,,-		एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	2	2010-11	50.000
-,,-		एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	16	2012	50.000
-,,-		एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	14	2010-11	20.000

1	2	3	4	5	6
7.	सनावद	बिगड़े वनों का सुधार	610	2005-06	30.000
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	643	2005-06	30.000
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	554	2005-06	30.000
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार	598	2005-06	30.000
	-,,-	आर. डी. एफ., नलवा	554	2006-07	30.000
	-,,-	आर. डी. एफ., बिराली	597	2006-07	30.000
	-,,-	आर. डी. एफ., दाभड़	611	2006-07	30.000
	-,,-	आर. डी. एफ., दाभड़	644	2006-07	30.000
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	286	2007-08	136.310
	-,,-	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	315	2007-08	85.320
	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	315	2008-09	92.890
	-,,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	315	2008-09	50.000
	-,,-	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	325	2012	50.000
	-,,-	R.K.V.Y.	288	2010-11	10.000

प्रतिबंधित 1-7-2012 से चराई से प्रतिबंधित घांस बीड की सूची

परिक्षेत्र का नाम	घांस बीड का नाम	क्षेत्रफल
1	2	3
		(हेक्टर में)
मण्डलेश्वर	1. खुशालसिंग वाली	22.662
-,,-	2. तोपखान वाली	36.826
-,,-	3. गोस्यावाली	8.095
-,,-	4. लगगीवाली	7.294
-,,-	5. बहेडावाली	8.712
-,,-	6. कामद वाली	3.237
-,,-	7. हिरया वाली	8.903
-,,-	8. काजी वाली	5.899
-,,-	9. भगवानसिंग वाली	11.735
-,,-	10. नवाब वाली	32.374
-,,-	11. म. वाली	7.284
-,,-	12. सांगया वाली	12.759
-,,-	13. भट्टयाण वाली	3.643
-,,-	14. खालबेडी वाली	15.378
-,,-	15. भूरा पाण्डु वाली	3.643
-,,-	16. गवालबेडी वाली	15.378
-,,-	17. भूरा पाण्डु वाली	16.996

1	2	3
मण्डलेश्वर	18. कुण्डाल वाली	6.070
-,,-	19. रूखया वाली	2.428
-,,-	20. अजू वाली	4.047
-,,-	21. कग्गा वाली	9.712
-,,-	22. रमजू वाली	0.809
पाडल्या	23. बसनगांव वाली	4.047
-,,-	24. भादलीपुरा	205.000
-,,-	25. करोंदिया	441.107
काटकुट	26. लेण्डारी	432.672
-,,-	27. ओखला	100.000
-,,-	28. मंगलसिंग वाली	33.183
बलवाडा	29. चिचला	10.000
-,,-	30. बिराली (भाग-1, भाग-2)	270.474
सनावद	31. बिजासन (भाग-1, भाग-2)	514.760

वर्ष 2012-13 के लिए चराई से बंद कूप

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वर्किंग सर्कल (कार्यवृत्त)	कूप नं.	कक्ष क्र.	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	II	266	126.450
2.			सुरतीपुरा	II	270	80.320
3.			कडियाकुण्ड	II	220	176.970
4.			सुलगांव	II	256	148.950
5.			कुण्डी	II	219	178.420
6.			पलास्या	II	242	114.750
7.			माधवपुरा	II	260	169.200
8.	बलवाडा	सुधार पातन	थरवर	II	137	103.500
9.			बडकीचौकी	II	78	127.200
10.			बलवाडा	II	100	137.930
11.			कालापाठा	II	128	105.300
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	II	169	166.270
13.			चैनपुरा	II	158	158.720
14.			ओखला	II	182	158.910
15.			कोदवार	II	189	141.290
16.			काटकूट	II	192	255.600

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
17.	काटकूट	सुधार पातन	बडेल	II	199	161.210
18.			मेंहदीखेडा	II	214	124.200
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	II	55	106.175
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	II	247	86.500
21.			मुरल्ला	II	147	114.610
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	II	95	120.825
23.			देवगढ	II	84	111.600
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	II	6	101.100
25.			गुठानिया	II	10	112.640
26.			काकड़दा	II	26	65.700
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	II	28	131.140
28.			बेकल्या	II	42	156.700
29.			गोवर्धनपुरा	II	47	184.974
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	II	59	112.500
31.			प्रेमपुरा	II	89	89.320
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	II	315	83.320
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	II	299	76.215
34.			नलवट	II	309	170.769
35.			सनावद	II	287	160.035
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	III	276	211.950
2.			सुरतीपुरा	III	279	153.900
3.			कडियाकुण्ड	III	285	115.800
4.			सुलगांव	III	259	99.450
5.			कुण्डी	III	219	175.780
6.			पलास्या	III	242	193.050
7.			माधवपुरा	III	252	140.620
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	III	134	151.420
9.			बडकीचौकी	III	76	97.210
10.			बलवाडा	III	101	124.200
11.			कालापाठा	III	127	119.920
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	III	152	155.820
13.			चैनपुरा	III	153	132.300
14.			ओखला	III	182	128.470
15.			कोदवार	III	188	201.080

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
16.	काटकूट	सुधार पातन	काटकूट	III	193	177.970
17.			बडेल	III	203	172.290
18.			मेंहदीखेडा	III	214	136.050
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	III	55	124.885
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	III	261	81.325
21.			मुर्ल्ला	III	147	150.750
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	III	103	77.400
23.			देवगढ	III	90	119.470
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	III	6	111.150
25.			गुठानिया	III	10	75.150
26.			काकड़दा	III	20	120.800
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	III	32	110.630
28.			बेकल्या	III	42	110.370
29.			गोवर्धनपुरा	III	43	166.270
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	III	59	138.600
31.			प्रेमपुरा	III	70	134.100
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	III	315	92.890
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	III	299	72.201
34.			नलवट	III	310	150.006
35.			सनावद	III	288	135.330
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	IV	265	119.700
2.			सुरतीपुरा	IV	279	143.100
3.			कडियाकुण्ड	IV	283	76.950
4.			सुलगांव	IV	259	152.320
5.			कुण्डी	IV	232	98.550
6.			पलास्या	IV	241	168.750
7.			माधवपुरा	IV	253	94.250
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	IV	134	166.660
9.			बडकीचौकी	IV	76	113.620
10.			बलवाड़ा	IV	105	141.600
11.			कालापाठा	IV	109	130.720
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	IV	151	178.540
13.			चैनपुरा	IV	153	155.700

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
14.	काटकूट	सुधार पातन	ओखला	IV	173	181.120
15.			कोदवार	IV	188	167.470
16.			काटकूट	IV	193	197.330
17.			बडेल	IV	203	120.370
18.			मेंहदीखेडा	IV	251	93.120
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	IV	54	166.140
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	IV	267	78.525
21.			मुरल्ला	IV	144	149.200
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	IV	95	198.900
23.			देवगढ	IV	89	109.800
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	IV	5	100.840
25.			गुठानिया	IV	12	89.100
26.			काकड़दा	IV	20	159.900
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	IV	32	93.150
28.			बेकल्या	IV	41	132.970
29.			गोवर्धनपुरा	IV	44	186.520
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	IV	61	127.350
31.			प्रेमपुरा	IV	69	216.560
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	IV	315	93.225
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	IV	301	110.350
34.			नलवट	IV	308	94.286
35.			सनावद	IV	289	140.215
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	V	272	104.210
2.			सुरतीपुरा	V	277	120.820
3.			कडियाकुण्ड	V	283	119.600
4.			सुलगांव	V	258	105.300
5.			कुण्डी	V	232	156.260
6.			पलास्या	V	241	181.120
7.			माधवपुरा	V	253	173.160
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	V	130	180.560
9.			बडकीचौकी	V	75	91.570
10.			बलवाडा	V	105	80.550
11.			कालापाठा	V	110	194.250

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	V	168	184.170
13.			चैनपुरा	V	154	179.790
14.			ओखला	V	173	202.500
15.			कोदवार	V	190	161.780
16.			काटकूट	V	194	160.650
17.			बडेल	V	205	207.530
18.			मेंहदीखेडा	V	215	131.710
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	V	49	137.020
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	V	261	96.625
21.			मुरल्ला	V	142	167.170
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	V	103	65.250
23.			देवगढ	V	90	103.060
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	V	4	101.700
25.			गुठानिया	V	16	88.650
26.			काकड़दा	V	21	103.180
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	V	32	88.420
28.			बेकल्या	V	41	178.491
29.			गोवर्धनपुरा	V	45	132.300
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	V	56	95.850
31.			प्रेमपुरा	V	70	76.270
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	V	315	80.125
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	V	301	126.350
34.			नलवट	V	313	112.378
35.			सनावद	V	290	299.130
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VI	272	140.200
2.			सुरतीपुरा	VI	277	166.500
3.			कडियाकुण्ड	VI	283	211.810
4.			सुलगांव	VI	258	145.350
5.			कुण्डी	VI	277	63.030
6.			पलास्या	VI	244	128.250
7.			माधवपुरा	VI	251	144.680
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VI	137	177.300

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
9.	बलवाड़ा	सुधार पातन	बडकीचौकी	VI	75	170.740
10.			बलवाड़ा	VI	98	123.150
11.			कालापाठा	VI	117, 118, 119	179.710
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VI	169	195.220
13.			चैनपुरा	VI	159	113.400
14.			ओखला	VI	146	166.250
15.			कोदवार	VI	191	95.700
16.			काटकूट	VI	194	157.810
17.			बडेल	VI	207	137.210
18.			मेंहदीखेडा	VI	213	137.250
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	VI	48	101.920
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	VI	263	70.795
21.			मुरल्ला	VI	142	89.550
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	VI	96	94.055
23.			देवगढ	VI	92	91.570
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	VI	3	97.420
25.			गुठानिया	VI	16	91.820
26.			काकड़दा	VI	21	97.420
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	VI	31	81.388
28.			बेकल्या	VI	39	144.406
29.			गोवर्धनपुरा	VI	43	97.090
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	VI	56	139.300
31.			प्रेमपुरा	VI	71	78.080
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	VI	324	113.040
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VI	302	146.215
34.			नलवट	VI	312	110.450
35.			सनावद	VI	291	255.215
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VII	271	228.820
2.			सुरतीपुरा	VII	277	113.560
3.			कडियाकुण्ड	VII	223	180.000
4.			सुलगांव	VII	256	142.200
5.			कुण्डी	VII	224	111.150

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
6.	वडवाह	सुधार पातन	पलास्या	VII	244	111.370
7.			माधवपुरा	VII	251	136.570
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VII	131	197.900
9.			बडकीचौकी	VII	87	199.470
10.			बलवाड़ा	VII	95	157.190
11.			कालापाठा	VII	125	140.800
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VII	166	153.790
13.			चैनपुरा	VII	160	130.720
14.			ओखला	VII	180	155.030
15.			कोदवार	VII	191	117.600
16.			काटकूट	VII	198	198.900
17.			बडेल	VII	207	157.950
18.			मेंहदीखेडा	VII	213	156.340
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	VII	48	168.054
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	VII	267	53.535
21.			मुरल्ला	VII	176	224.550
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	VII	96	70.875
23.			देवगढ	VII	89	79.830
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	VII	5	157.950
25.			गुठानिया	VII	15	40.950
26.			काकड़दा	VII	18	128.580
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	VII	30	96.010
28.			बेकल्या	VII	40	126.370
29.			गोवर्धनपुरा	VII	53	176.090
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	VII	63	108.670
31.			प्रेमपुरा	VII	72	102.565
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	VII	325	59.000
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VII	302	165.855
34.			नलवट	VII	312	115.383
35.			सनावद	VII	291	177.085

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, बड़वानी

समस्त पशु स्वामियों एवं पशु चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम-4 के अन्तर्गत आने वाले निम्नांकित आरक्षित वन क्षेत्रों में आने वाले वृक्षारोपण क्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2012 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं. जो पशु स्वामी, चरवाहे वन क्षेत्रों में पशु/मवेशी चराते हुए पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वन नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:—

अ. क्र.	परिक्षेत्र	चराई से प्रतिबंधित स्थल	कक्ष क्रमांक	वर्ष	हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
1.	पाटी	चारागाह विकास, अंजराडा	1078	2006-07	100.00
2.	-,-	चारागाह विकास, कुली	1129	-,-	75.00
3.	-,-	चारागाह विकास, नेवा	1105	-,-	50.00
4.	-,-	आर. डी. एफ., बागदरा फाल्या	1182	-,-	150.00
5.	-,-	आर. डी. एफ., सागबारा	1159	-,-	50.00
6.	-,-	आर. डी. एफ., बागदरा फाल्या (लेखड़ा)	1160	2007-08	50.00
7.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1176	-,-	50.00
8.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलवारा	1173	-,-	50.00
9.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1151	-,-	50.00
10.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, जीवाणी	1161	-,-	50.00
11.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1163	-,-	50.00
12.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, चैरवी	1184	-,-	50.00
13.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सिरसपानी	1164	-,-	50.00
14.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	1162	-,-	50.00
15.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, उमरबाडी	1163	-,-	50.00
16.	-,-	चारागाह विकास, रणकुई	1074	-,-	50.00
17.	-,-	चारागाह विकास, गुराडा फलिया	1068	-,-	50.00
18.	-,-	चारागाह विकास, मगरपाटी	1079	-,-	50.00
19.	-,-	चारागाह विकास, आसोडा	1075	-,-	50.00
20.	राजपुर	चारागाह विकास, मंडवाडी	1011	-,-	50.00
21.	-,-	चारागाह विकास, सगाई मोडी	1029	-,-	50.00
22.	-,-	चारागाह विकास, अघोई माल	1028	-,-	50.00
23.	-,-	चारागाह विकास, मोरानी	1031	-,-	50.00
24.	-,-	चारागाह विकास, मुडिया फाल्या	1027	-,-	50.00
25.	-,-	चारागाह विकास, दानोद (डाबरिया फाल्या)	1022	-,-	50.00
26.	-,-	चारागाह विकास, डाबरिया फाल्या बोबलवाडी	1022	-,-	50.00

1	2	3	4	5	6
27.	राजपुर	चारागाह विकास, डाकर कुण्ड	1024	2007-08	50.00
28.	-,-	चारागाह विकास, घमोडी	1034	-,-	50.00
29.	बड़वानी	चारागाह विकास, नागली फल्या	1037	-,-	50.00
30.	-,-	चारागाह विकास, सेमल्या खोदरा	1038	-,-	50.00
31.	-,-	चारागाह विकास, अमनई आमल्या पानी	1044	-,-	50.00
32.	-,-	चारागाह विकास, घाबाबावडी	1039	-,-	50.00
33.	-,-	चारागाह विकास, मालफल्या	1058	-,-	50.00
34.	-,-	चारागाह विकास, अंबापानी	1056	-,-	50.00
35.	-,-	चारागाह विकास, बोम्या	1080	-,-	50.00
36.	-,-	चारागाह विकास, अम्बापानी	1054	-,-	50.00
37.	-,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	1082	-,-	50.00
38.	-,-	भू-जल संरक्षण, भामटा	1087	-,-	50.00
39.	पाटी	भू-जल संरक्षण, मगरपाटी	1083	-,-	50.00
40.	-,-	भू-जल संरक्षण, नेवा	1105	-,-	50.00
41.	-,-	भू-जल संरक्षण, सेमली	1094	-,-	50.00
42.	-,-	भू-जल संरक्षण, बमनाली	1106	-,-	50.00
43.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	1109	-,-	50.00
44.	-,-	भू-जल संरक्षण, गाताबारा	1107	-,-	50.00
45.	-,-	भू-जल संरक्षण, कुली	1120	-,-	50.00
46.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरफल्या	1122	-,-	50.00
47.	-,-	भू-जल संरक्षण, घोघंसा	1128	-,-	50.00
48.	-,-	भू-जल संरक्षण, ग्वाल फल्या	1127	-,-	50.00
49.	-,-	भू-जल संरक्षण, खैरवानी	1130	-,-	50.00
50.	-,-	भू-जल संरक्षण, लिम्बया फाल्या	1155	-,-	50.00
51.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोट बांधनी	1155	-,-	50.00
52.	-,-	भू-जल संरक्षण, लाई झापी	1124	-,-	50.00
53.	-,-	भू-जल संरक्षण, भादल	1142	-,-	50.00
54.	-,-	भू-जल संरक्षण, उमरखेड़ा	11231	-,-	50.00
55.	-,-	भू-जल संरक्षण, खैरवानी	1150	-,-	50.00
56.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	1151	-,-	50.00
57.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	1169	-,-	50.00
58.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1173	-,-	50.00

1	2	3	4	5	6
59.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बिलवारा	1173	2007-08	50.00
60.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, उमरबाडी	1163	-,-	50.00
61.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1163	-,-	50.00
62.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोषर	1178	-,-	50.00
63.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1178	-,-	50.00
64.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1150	-,-	50.00
65.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, जीवाणी	1161	-,-	30.00
66.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, रोषमाल	1272	-,-	20.00
67.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, चिचवान्या	1247	-,-	15.00
68.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	1257	-,-	30.00
69.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, पिपरकुंड	1235	-,-	50.00
70.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुंड	1228	-,-	20.00
71.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोकराटा	1239	-,-	50.00
72.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोकराटा	1241	-,-	40.00
73.	बड़वानी	चारागाह विकास, मरदई, गोलबावडी	1289	-,-	50.00
74.	-,-	चारागाह विकास, फफरियागुलर	1282	-,-	35.00
75.	-,-	चारागाह विकास, केली ए	1280	-,-	50.00
76.	-,-	चारागाह विकास, केली बी	1280	-,-	50.00
77.	-,-	चारागाह विकास, सुखपुरी	1288	-,-	50.00
78.	पाटी	चारागाह विकास, मगरपाटी	1079	-,-	40.00
79.	-,-	चारागाह विकास, ओसाडा	1074	-,-	30.00
80.	-,-	चारागाह विकास, रणकुईपीठा	1076	-,-	25.00
81.	-,-	चारागाह विकास, नेवा	1104	-,-	35.00
82.	-,-	चारागाह विकास, टपकला	1070	-,-	60.00
83.	बोकराटा	चारागाह विकास, चिचवान्या	1252	-,-	25.00
84.	-,-	चारागाह विकास, उबादगढ	1209	-,-	40.00
85.	-,-	चारागाह विकास, पोखल्या	1276	-,-	50.00
86.	राजपुर	चारागाह विकास, डोकरकुंड	1024	-,-	50.00
87.	-,-	चारागाह विकास, मोरानी	1030	-,-	50.00
88.	-,-	चारागाह विकास, धमोडी	1031	-,-	50.00
89.	-,-	चारागाह विकास, धमोडी	1032	-,-	50.00
90.	-,-	चारागाह विकास, जलगोन	1003	-,-	50.00
91.	-,-	चारागाह विकास, रोझानी	1015	-,-	25.00

1	2	3	4	5	6
92.	ठीकरी	चारागाह विकास, ठीकरी	993	2007-08	70.00
93.	-,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,-	50.00
94.	-,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,-	50.00
95.	-,-	चारागाह विकास, ठीकरी	994	-,-	50.00
96.	-,-	चारागाह विकास, सेगवाल	997	-,-	50.00
97.	-,-	चारागाह विकास, हसनखेडी	998	-,-	40.00
98.	पाटी	भू एवं जल संरक्षण, घोंघसा (बाराफल्या-ए)	1126	-,-	65.00
99.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, घोंघसा (बाराफल्या-बी)	1126	-,-	70.00
100.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, बोरखेडी	1110	-,-	50.00
101.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, घोंघसा-1	1126	-,-	55.00
102.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, घोंघसा-2	1126	-,-	60.00
103.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, कुली	1122	-,-	50.00
104.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, बमनाली	1106	-,-	50.00
105.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, कोटबांधनी	1139	-,-	50.00
106.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, बोरखेडी (पलासपानी)	1109	-,-	50.00
107.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, बोरखेडी (गाताबारा)	1110	-,-	50.00
108.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, कुली (गुवानफल्या)	1122	-,-	50.00
109.	-,-	भू एवं जल संरक्षण, आमल्याफल्या	1143	-,-	30.00
110.	-,-	आर. डी. एफ., मान्या खेत	1151	-,-	50.00
111.	-,-	आर. डी. एफ., मेढकीमाल	1169	-,-	50.00
112.	-,-	आर. डी. एफ., गोलगांव	1173	-,-	50.00
113.	-,-	आर. डी. एफ., बिलबारा	1173	-,-	50.00
114.	-,-	आर. डी. एफ., उमरबाडी	1163	-,-	50.00
115.	-,-	आर. डी. एफ., लेखडा	1163	-,-	50.00
116.	-,-	आर. डी. एफ., रोप्र	1178	-,-	50.00
117.	-,-	आर. डी. एफ., कामोद	1178	-,-	50.00
118.	-,-	आर. डी. एफ., गोलगांव	1150	-,-	50.00
119.	-,-	आर. डी. एफ., जीवाणी	1161	-,-	30.00
120.	बोकराटा	आर. डी. एफ., रोषमाल	1272	-,-	20.00
121.	-,-	आर. डी. एफ., चिचवानिया	1247	-,-	15.00
122.	-,-	आर. डी. एफ., मोरानी	1257	-,-	30.00

1	2	3	4	5	6
123.	बोकराटा	आर. डी. एफ., पीपरकुंड	1219	2007-08	40.00
124.	-,-	आर. डी. एफ., पीपरकुंड	1235	-,-	50.00
125.	-,-	आर. डी. एफ., मरतकुंड	1228	-,-	20.00
126.	-,-	आर. डी. एफ., बोकराटा	1239	-,-	50.00
127.	-,-	आर. डी. एफ., बोकराटा	1241	-,-	40.00
128.	-,-	चारागाह विकास, मरदई, गोलबावडी	1289	-,-	50.00
129.	बडवानी	चारागाह विकास, फफरियागुलर	1282	-,-	35.00
130.	-,-	चारागाह विकास, केली-ए	1280	-,-	50.00
131.	-,-	चारागाह विकास, केली-बी	1280	-,-	50.00
132.	-,-	चारागाह विकास, सुखपुरी	1288	-,-	50.00
133.	पाटी	चारागाह विकास, मगरपाटी	1079	-,-	40.00
134.	-,-	चारागाह विकास, ओसाडा	1074	-,-	30.00
135.	-,-	चारागाह विकास, रनकुई	1076	-,-	25.00
136.	-,-	चारागाह विकास, नेवा	1104	-,-	35.00
137.	-,-	चारागाह विकास, टपकला	1070	-,-	60.00
138.	बोकराटा	चारागाह विकास, चिचवान्या	1252	-,-	25.00
139.	-,-	चारागाह विकास, उबादगढ	1209	-,-	40.00
140.	-,-	चारागाह विकास, पोखल्या	1276	-,-	50.00
141.	राजपुर	चारागाह विकास, डोकरकुंड	1024	-,-	50.00
142.	-,-	चारागाह विकास, मोरानी	1030	-,-	50.00
143.	-,-	चारागाह विकास, धमोडी	1031	-,-	50.00
144.	-,-	चारागाह विकास, धमोडी	1032	-,-	50.00
145.	-,-	चारागाह विकास, जलगोन	1003	-,-	50.00
146.	-,-	चारागाह विकास, रोझानी	1015	-,-	25.00
147.	-,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,-	70.00
148.	-,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,-	50.00
149.	-,-	चारागाह विकास, ठीकरी	993	-,-	50.00
150.	-,-	चारागाह विकास, ठीकरी	994	-,-	50.00
151.	-,-	चारागाह विकास, सेगवाल	997	-,-	50.00
152.	-,-	चारागाह विकास, हसनखेडी	998	-,-	40.00
153.	पाटी	भू-जल संरक्षण, घाधसा ग्वालफाल्या-ए	1126	-,-	65.00

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
154.	पाटी	भू-जल संरक्षण, घोंधसा-बी	1126	2007-08	70.00
155.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	1110	-,-	50.00
156.	-,-	भू-जल संरक्षण, घोंधसा-1	1126	-,-	55.00
157.	-,-	भू-जल संरक्षण, घोंधसा-2	1126	-,-	60.00
158.	-,-	भू-जल संरक्षण, कुली	1122	-,-	50.00
159.	-,-	भू-जल संरक्षण, बमनाली	1106	-,-	50.00
160.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोट बांधनी	1039	-,-	50.00
161.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी (पलासपानी)	1109	-,-	50.00
162.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी गाताबारा	1110	-,-	50.00
163.	-,-	भू-जल संरक्षण, कुली (गुवानफल्या)	1122	-,-	50.00
164.	-,-	भू-जल संरक्षण, आमल्याफल्या	1143	-,-	30.00
165.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1157	2008-09	50.00
166.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, जीवाणी	1151	-,-	50.00
167.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोषर	1181	-,-	50.00
168.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,-	50.00
169.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, चेरवी	1164	-,-	50.00
170.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सिरसपानी	1164	-,-	50.00
171.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1173	-,-	50.00
172.	-,-	आदिवासी उपयोजना, बिलबारा	1173	-,-	50.00
173.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	1169	-,-	50.00
174.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सिरसपानी	1169	-,-	50.00
175.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1157	-,-	40.00
176.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	1151	-,-	50.00
177.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1158	-,-	50.00
178.	राजपुर	वृक्षा रोपण राजपुर, जलगोन	1003	-,-	45.00
179.	-,-	वृक्षा रोपण राजपुर, बोबलवाडी	1004	-,-	55.00
180.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	1181	-,-	30.00
181.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1164	-,-	35.00
182.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	1151	-,-	65.00
183.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1164	-,-	110.00

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
184.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, बोकराटा	1247	2009-10	20.00
185.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	1274	-,-	20.00
186.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	1259	-,-	50.00
187.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,-	40.00
188.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, पीपरकुण्ड	1219	-,-	50.00
189.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1231	-,-	50.00
190.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1232	-,-	30.00
191.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, भूरवानी	1190	-,-	50.00
192.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	1246	-,-	50.00
193.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,-	65.00
194.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,-	75.00
195.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोषमाल	1261	-,-	70.00
196.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,-	50.00
197.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,-	100.00
198.	-,-	बिगड़े वनों का सुधार, भानिजकुण्ड	1261	-,-	40.00
199.	राजपुर	मिश्रित रोपण, बोबलवाडी	1004	2010-11	25.00
200.	पाटी	बिगड़े वनों में सुधार, बिलवारा	1172	-,-	51.15
201.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, मान्याखेत	1151	-,-	45.89
202.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, सागबारा	1157	-,-	69.81
203.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, मेंढकीमाल	1162	-,-	51.76
204.	बोकराटा	बिगड़े वनों में सुधार, बेडीफरतला	1178	-,-	69.71
205.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, बन	1214	-,-	49.78
206.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, रामगढ	1259	-,-	37.74
207.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, देवगढ	1240	-,-	47.93
208.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, बोरकुंड	1187	-,-	70.80
209.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, मोरानी	1244	-,-	71.43
210.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, झरार	1229	-,-	54.53
211.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, मतरकुंड	1226	-,-	33.91
212.	-,-	बिगड़े वनों में सुधार, हाटबावडी	1261	-,-	58.88

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
213.	बडवानी	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	1039	2010-11	10.00
214.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	1066	-,-	10.00
215.	पाटी	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,-	20.00
216.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, कुली घोंघसा	127	-,-	20.00
217.	बोकराटा	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,-	10.00
218.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, हरला	203	-,-	10.00
219.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,-	10.00
220.	राजपुर	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, दानौद	27	-,-	10.00
221.	बोकराटा	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पिपरकुंड	231	-,-	10.00
222.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चोकी	211	-,-	10.00
223.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, हाटबावडी	279	-,-	10.00
224.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीवाडी	259	-,-	10.00
225.	-,-	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, शिवनी	226	-,-	10.00
226.	राजपुर	ओंकारेश्वर निधि, कुसमरी	1003	-,-	28.00
227.	-,-	ओंकारेश्वर निधि, बोलवाडी	1004	-,-	19.00
228.	-,-	ओंकारेश्वर निधि, ठीकरी	993	-,-	23.00
229.	पाटी	भूमि संरक्षण योजनाएं, मगरपाटी	88	-,-	50.00
230.	राजपुर	मिश्रीत वृक्षारोपण, दानौद	1021	-,-	30.00
231.	-,-	मिश्रीत वृक्षारोपण, खडकी	P-329	-,-	50.00
232.	पाटी	आर. डी. एफ., बिलवारा	177/3	2011-12	60.43
233.	-,-	आर. डी. एफ., मान्या खेत	156/2	-,-	56.57
234.	-,-	आर. डी. एफ., मेढकीमाल	167/2	-,-	57.57
235.	-,-	आर. डी. एफ., सागबारा	162/2	-,-	51.34
236.	बोकराटा	आर. डी. एफ., बेडीफरतला	183/2	-,-	46.74
237.	-,-	आर. डी. एफ., बोरकुंड	192/2	-,-	47.75
238.	-,-	आर. डी. एफ., मतरकुंड	231/2	-,-	42.49
239.	-,-	आर. डी. एफ., मोरानी	249/2	-,-	22.50
240.	-,-	आर. डी. एफ., रामगढ	264/2	-,-	49.10
241.	-,-	आर. डी. एफ., बन	219/2	-,-	42.50
242.	-,-	आर. डी. एफ., हाटबावडी	266/2	-,-	55.02
243.	-,-	आर. डी. एफ., झरार	234/2	-,-	37.90
244.	-,-	आर. डी. एफ., देवगढ	245/2	-,-	50.33

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
245.	बड़वानी	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	2011-12	48.34
246.	-,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,-	42.53
247.	-,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,-	57.99
248.	पाटी	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,-	46.91
249.	-,-	भू-जल संरक्षण, कुली	131	-,-	60.70
250.	-,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	108	-,-	56.05
251.	-,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,-	58.84
252.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,-	45.47
253.	-,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,-	45.02
254.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,-	41.56
255.	-,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	144	-,-	60.65
256.	बड़वानी	चारागाह विकास, बावनगजा	72 II	-,-	79.98
257.	-,-	चारागाह विकास, मरदई	295 III	-,-	51.33
258.	-,-	चारागाह विकास, केली	284 II	-,-	56.17
259.	-,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60 II	-,-	47.61
260.	-,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,-	65.86
261.	-,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,-	56.67
262.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	41	-,-	54.82
263.	-,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,-	61.21
264.	पाटी	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,-	67.66
265.	बोकराटा	चारागाह विकास, गारा	269	-,-	39.81
266.	-,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,-	32.68
267.	-,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,-	50.93
268.	राजपुर	चारागाह विकास, उपला	31	-,-	59.80
269.	-,-	चारागाह विकास, मोरानी	36	-,-	34.71
270.	-,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,-	57.32
271.	-,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	1	-,-	35.00
272.	-,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	-,-	50.00
273.	-,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	-,-	50.00
274.	-,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सगाईमोडी	15	-,-	40.00
275.	-,-	मिश्रित वृक्षारोपण, दानोद	27	-,-	30.00

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
276.	राजपुर	मिश्रित वृक्षारोपण, खडकी	329	2011-12	50.00
277.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोबलवाडी	1004	-,,-	25.00
278.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, जलगोन	1003	-,,-	45.00
279.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोबलवाडी	1004	-,,-	55.00
280.	पाटी	मिश्रित वृक्षारोपण, मान्याखेत	1151	-,,-	50.00
281.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सागबारा	1158	-,,-	50.00
282.	बडवानी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	10.00
283.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	10.00
284.	पाटी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,,-	10.00
285.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, कुली/घोंघसा	127	-,,-	20.00
286.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	10.00
287.	बोकराटा	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, हरला	103	-,,-	10.00
288.	पाटी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,,-	10.00
289.	राजपुर	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, दानोद	27	-,,-	10.00
290.	बोकराटा	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीबाडी	259	-,,-	10.00
291.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पोखल्या	279	-,,-	10.00
292.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पूर्व	211	-,,-	10.00
293.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पीपरकुंड	231	-,,-	10.00
294.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पश्चिम	226	-,,-	10.00

(364)

ए. के. बरोनिया,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, जिला नीमच

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पिपल्या व्यास, तहसील नीमच, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक 502, दिनांक 21 जनवरी, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/660, दिनांक 05 सितम्बर, 2007 द्वारा परिसमापन में लिया जाकर श्री राजीव चौधरी, पर्यवेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया.

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पिपल्या व्यास, तहसील नीमच, जिला नीमच को पुनर्जीवित करने हेतु श्री राजीव चौधरी, पर्यवेक्षक द्वारा पुनर्जीवन करने हेतु की गयी सिफारिश अनुसार संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है.

अतः मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-एक-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पिपल्या व्यास, तहसील नीमच, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पिपल्या व्यास, जिला नीमच इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परि./660, दिनांक 05 सितम्बर, 2007 को निरस्त करते हुए

इस संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ तथा संस्था के आगामी कार्य के संचालन हेतु नामांकित सदस्यों की प्रबंधकारिणी कमेटी आगामी तीन माह के लिये नामांकित की जाती है.कमेटी निम्नानुसार है.—

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. श्रीमति रिशीदेवी पति मनोहरलाल | अध्यक्ष |
| 2. श्री शंकरलाल-गिरिलाल | सदस्य |
| 3. श्री कंवरलाल-मोहनलाल | सदस्य |
| 4. श्री कांशीराम-ऐटा | सदस्य |

यह आदेश आज दिनांक 01 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(365)

एम. आर. निरगुडे,
सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 20 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/682.—कार्यालयीन पत्र क्र./शिकायत/12/296, दिनांक 09 मार्च, 2012 से प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई. शिकायत के मुद्दों पर जांच में उपस्थितों के कथन अनुसार जनता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम संस्था अध्यक्ष जिन्हें परिसमापनाधीन समिति को पुनर्जीवित कर नामांकित अध्यक्ष बनाया गया था, द्वारा घोर लापरवाहीपूर्ण कृत्य किया जाकर पूर्व में आवंटित भूखण्ड क्रमांक 12 को बगैर रिकार्ड देखे अन्य व्यक्ति को विक्रय कर रजिस्ट्री कर दी गई तथा नामांकित संचालक मण्डल द्वारा सुधार की कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं नियत समय में नियमानुसार निर्वाचन कराने में भी वे अक्षम रहे हैं तथा संस्था हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं. जिससे पूर्ववत परिसमापन की कार्यवाही की जाना ही योग्य पाया जाता है

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत जनता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(366)

मनोज कुमार गुप्ता,
उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 14 अगस्त, 2012

विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-163/2012/32, भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2012 द्वारा पुनर्गठित गोहद निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति

1. कलेक्टर, भिण्ड.
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भिण्ड.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, गोहद.

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है, यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये विद्यमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भिण्ड में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

(374)

व्ही. के. शर्मा,
संयुक्त संचालक,
वास्ते सहायक संचालक.

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 09 जुलाई, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 54, दिनांक 25 मई, 1979, जिला खण्डवा के गत निर्वाचन दिनांक 24 सितम्बर, 2003 को सम्पन्न हुए थे. संस्था के कार्यकारिणी कमेटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीन निर्वाचन कराने में असफल रही. परिणाम स्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/10/1349, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अन्तर्गत श्री सुभाष चव्हाण को संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. श्री चव्हाण ने पत्र दिनांक 07 जुलाई, 2011 को सूचित किया गया है कि संस्था के सदस्य निर्वाचन कराने में रुचि नहीं रखते हैं. उन्होंने संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है.

प्रभारी अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से कार्यालयीन अभिलेखों से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं—

1. संस्था के निर्वाचन में किसी सदस्य द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
2. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियाँ एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 30 दिवस के भीतर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर संस्था के शेष सदस्य पूर्व पदाधिकारी अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप आयुक्त.

(367)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/402.—आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धनौरा को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1496, दिनांक 06 अक्टूबर, 1987 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री एन. एस. धुर्वे को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धनौरा, पंजीयन क्रमांक 278 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एन. सिंह,
उप-पंजीयक.

(355-P)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2012-भाद्रपद 2, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 9 मई, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश कहीं-कहीं मेघाच्छादित रहे हैं.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील सुबासराटप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ, सीतामऊ, शामगढ़ (मन्दसौर), सुसनेर, शाजापुर (शाजापुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ (राजगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील भानपुरा (मन्दसौर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील बड़ोद (शाजापुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला धार, बुरहानपुर, बैतूल तथा डिण्डोरी जिले में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला अनूपपुर में फसल गेहूँ व मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, झाबुआ, भोपाल तथा रायसेन, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 9 मई, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, सोयाबीन, गेहूँ, राई-सरसों समान.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह
2. पोरसा
3. मुरैना
4. जौरा
5. सबलगढ़
6. कैलारस
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर
2. कराहल
3. विजयपुर
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
1. अटेर
2. भिण्ड
3. गोहद
4. मेहगांव
5. लहार
6. मिहोना
7. रौन
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोट, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर
2. डबरा
3. भितरवार
4. घाटीगांव
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा
2. दतिया
3. भाण्डेर
*जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
1. शिवपुरी
2. पिछोर
3. खनियाधाना
4. नरवर
5. करैरा
6. कोलारस
7. पोहरी
8. बदरवास

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. सारंगपुर	..				
7. पलेरा	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. ओरछा	..				
10. लिधौरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई- सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज सुधरी हुई.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) उड़द, मूँग, गन्ना सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. सेमरिया	..				
4. मरुगंज	..				
5. मनगवां	..				
6. हनुमना	..				
7. हजूर	..				
8. गुढ़	..				
9. रायपुरकर्चुलियान	..				
10. जबा	..				
11. नईगढ़ी	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुढ़ार	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..		मसूर, लाख, तिवड़ा, गेहूँ, जौ		
4. कुसमी	..		समान.		
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
*जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासराट्ण्पा	17.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	20.2		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	12.0				
4. गरोठ	3.6				
5. मन्दासौर	..				
6. संजीत	..				
7. सीतामऊ	2.0				
8. धुन्धडका	..				
9. शामगढ़	12.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..		(2) ..		
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
*जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	10.4		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..		(2) ..		
4. आगर	..				
5. बड़ौद	35.0				
6. शाजापुर	1.6				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापिपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गेहूँ, प्याज अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मूंग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. भामरा	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2)	
3. राणापुर	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गर्मी की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	..		सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	..		(2) ..		
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	16.5		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	15.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	12.1				
4. ब्यावरा	9.8				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	0.2				
7. पचोर	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	..				
4. जावर	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागांज	..				
7. बुधनी	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम. जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) . .		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) . .		
3. शाहपुर	..				
4. चिचौली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) गेहूँ समान.		
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. सिराली	..				
6. रहटगांव	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, मसूर, मटर समान.		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर : 1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मण्डला : 1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला डिण्डोरी : 1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला छिन्दवाड़ा : 1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांढुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. मोहखेड़ा 11. हरई	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सिवनी : 1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसौर 7. धनोरा 8. छपारा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला बालाघाट : 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.— *जिला भिण्ड, शिवपुरी, गुना, रीवा, सिंगरोली, रतलाम, उज्जैन, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(357)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.